



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/ फाल्गुन 2, 1940

No. 76]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/ PHALGUNA 2, 1940

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2019

सं. बीईई/एस एण्ड एल/एलईडी/ 52/2018-19.—प्रारूप संशोधन विनियम अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैंप के लेबलों पर इनके प्रदर्शन के विवरण और रीति) विनियम, 2018 बीईई / एस एण्ड एल/ एलईडी /52/2018-19 तारीख 13 दिसंबर, 2018 को प्रकाशित किए गए थे, जैसा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित है, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से राजपत्र की प्रतियों में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, जब जनता को उपलब्ध कराया गया था, तीस दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

13 दिसंबर, 2018 को उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि इस बारे में सुझाव का ध्यान रखा गया है।

अतः अब केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (i) और धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैंप के लेबलों पर इनके प्रदर्शन के विवरण और रीति) विनियम, 2017 के संशोधन में, ऐसे संशोधन से पहले उन बातों के सिवाए किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ब्यूरो निम्नलिखित विनियमों को बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्पों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति), संशोधन विनियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्पों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2017 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया),-
विनियम 2 में,
(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंडों को रखा जाएगा, अर्थात् :-
'(ख) "छोटे मॉडल" से मूल मॉडल को छोड़कर, सभी मॉडल या परिवार के अंदर के मॉडल अभिप्रेत है;
(खक) "मॉडलों के परिवार" से एक अभिहित समूह, ल्यूमेन रेंज, सीसीटी और स्टार रेटिंग बैंड के अंदर एक परिवार है और विनिर्माता द्वारा ऐसा घोषित एक मूल मॉडल और छोटे मॉडल या मॉडल शामिल हैं, अभिप्रेत है;
(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(छ) "मूल मॉडल" में परिवार से, विनिर्माता द्वारा "मूल मॉडल" के रूप में घोषित उच्चतम रेटेड वॉट क्षमता वाले एलईडी लैम्प अभिप्रेत है';
3. उक्त विनियमों के विनियम (6) में उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
" (4) मॉडलों के परिवार के अधीन एक मॉडल के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4097 (अ) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के खंड (क) के अधीन जारी भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4097(अ) जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित की गई थी, के उपबंधों का अनुपालन करता है।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./551/18]

टिप्पणः— प्रकाशित विनियम भारत के राजपत्र असाधारण में संख्या सं. बीईई/एस एण्ड एल/एलईडी/52/2017-18 तारीख 28 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2019

No. BEE/S&L/LED/52/2018-19.—Whereas the draft amendment regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2018, were published vide notification number BEE/S&L/LED/52/2018-19, dated the 13th December, 2018, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the period of forty-five days from the date on which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 13th December, 2018;

And whereas suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 and clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the said Act and in amendment of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such amendment, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

3. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps), Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

4. In the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manners of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2017 (herein after referred to as the said regulations,- in regulation 2,

(ii) for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

‘(b) “child model” means all model or models under a family, except the parent model;

(ba) “family of models” means a family within a designated group, lumen range, CCT and star rating band and consist of a parent model and child model or models declared as such by the manufacturer;’;

(ii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(g) “parent model” in a family means , the LED lamp with highest rated wattage declared as a parent model by the manufacturer;’;

3. In regulation (6) of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(4) For the purpose of registration of a model under family of models, it shall be ensured that it complies with the provisions of the notification of the Government of India in Ministry of Power number S.O. 4097 (E), published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, sub-section (ii) of dated the 28th December, 2017 issued under clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001.”

ABHAY BAKRE, Director General
[ADVT. III/4/Exty./551/18]

Note.- The published regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number BEE/S&L/LED/52/2017-18, dated the 28th December, 2017.